



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3 उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3 Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2336]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 14, 2014/कार्तिक 23, 1936

No. 2336]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 14, 2014/KARTIKA 23, 1936

दिल्ली विकास प्राधिकरण

(मुख्य योजना अनुभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 14 नवम्बर, 2014

का.आ. 2916(अ).—दिल्ली विकास प्राधिकरण/केन्द्र सरकार का दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 11-‘क’ के अंतर्गत मुख्य योजना/जोन ‘डी’ की क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है, जिन्हें जनता की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है। प्रस्तावित संशोधन के संबंध में किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा कोई सुझाव देना हो, तो वे अपनी आपत्ति/सुझाव इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिनों की अवधि के अंदर आयुक्त एवं सचिव, दिल्ली विकास प्राधिकरण, ‘बी’ ब्लॉक, विकास सदन, नई दिल्ली-110023 को लिखित रूप में भेज सकते हैं। आपत्ति करने अथवा सुझाव देने वाले व्यक्ति अपना नाम और पता भी दें।

संशोधन :

स्थान	क्षेत्रफल	भूमि उपयोग (दि.मु.यो.-2021)	जिसमें भूमि उपयोग परिवर्तित किया जाना है	सीमाएं
1.	2.	3.	4.	5.
हुमायूँ का मकबरा, नई दिल्ली के समीप सुंदर नर्सरी का क्षेत्र, जो योजना जोन-‘डी’ में आता है।	170000 वर्ग मीटर (17.0 हेक्टेयर)	‘कृषि/हरित पट्टी एवं जलाशय (पौधशाला)’	‘मनोरंजनात्मक’ (जिला पार्क)	उत्तर: वन्य प्राणी पार्क दक्षिण : स्मारक और हुमायूँ का मकबरा पूर्व : भारत स्काउट्स गाइड मैप ग्राउण्ड/रिंग रोड पश्चिम : दिल्ली पब्लिक स्कूल/मथुरा रोड

प्रस्तावित संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपर्युक्त अवधि के दौरान सभी कार्य-दिवसों को उप निदेशक (मुख्य योजना) कार्यालय, दिल्ली विकास प्राधिकरण, छठी मंजिल, विकास मीनार, आई.पी.एस्टेट, नई दिल्ली में उपलब्ध रहेगा।

[फा. सं. एफ. 20(23)2014/एम.पी.]

बृजेश कुमार मिश्र, आयुक्त एवं सचिव

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY**(Master Plan Section)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 14th November, 2014

S.O. 2916(E).—The following modifications which the Delhi Development Authority/Central Government proposes to make to the Master Plan/Zonal Development Plan of Zone 'D' under section 11-A of DD Act, 1957 is hereby published for public information. Any person having any objection or suggestion with respect to the proposed modification may send the objection/suggestion in writing to the Commissioner-cum-Secretary, Delhi Development Authority, 'B' Block, Vikas Sadan, New Delhi-110023 within a period of thirty days from the date of this notice. The person making the objection or suggestion should also give his/her name and address.

Modifications:

Location	Area	Land use (MPD-2021)	Land use Changed to	Boundaries
1	2	3	4	5
Area in respect of Sunder Nursery near Humayun's Tomb, New Delhi, falling in Planning, Zone-'D'	170000 sq.m. (17.0 ha.)	'Agriculture/ Green Belt & Water Body (Plant Nursery)'	'Recreational (District Park)	North: Zoological Park South: Monuments & Humayun's Tomb East: Bharat Scouts Guide Map Ground/ Ring Road West: Delhi Public School & Mathura Road

The plan indicating the proposed modification is available for inspection at the office of Deputy Director (MP), Delhi Development Authority, 6th Floor, Vikas Minar, I.P. Estate, New Delhi on all working days during the period referred above.

[F. No. F. 20(23)2014/MP]

BRIJESH KUMAR MISHRA, Commissioner-cum-Secy.